



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 10.10.2021

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



“ आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर

जनपदीय पुलिस द्वारा चलाया गया व्यापक सफाई अभियान ”

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन में आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के अवसर पर आज दिनांक **10.10.2021** (दिन रविवार) को जनपदीय पुलिस के सभी कार्यालयों / पुलिस लाइन / थानों / कण्ट्रोल रूम / फायर स्टेशन / बैरकों इत्यादि में सफाई अभियान चलाया गया ।

कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य - जागरूकता उत्पन्न करना, लोगों को संगठित करना और स्वच्छ भारत पहल में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना है । इस अवसर पर पुलिस के सभी कार्यालयों / पुलिस लाइन / थानों / कण्ट्रोल रूम / फायर स्टेशन इत्यादि की साफ-सफाई की गयी ।

साफ-सफाई का कार्य कराये जाने हेतु जनपद स्तर पर अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0 गौतम को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया था जिनके नेतृत्व में तथा समस्त क्षेत्राधिकारियों के निकट पर्यवेक्षण में सभी कार्यालयों / पुलिस लाइन / थानों / फायर स्टेशन / बैरकों इत्यादि की साफ-सफाई की गयी ।

सभी कार्यालयों से सिंगल यूज प्लास्टिक का कचरा निकलवाकर उसे समुचित तरीके से यथास्थान पहुँचाया गया, प्लास्टिक कचरा, गीला कचरा, सूखा कचरा का संग्रह एवं निपटान अलग-अलग किया गया ।

कार्यालयों / पुलिस लाइन / थानों / कण्ट्रोल रूम / फायर स्टेशन / बैरकों इत्यादि में लगे कूलरों की साफ-सफाई की गयी एवं डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए कूलरों में पानी का प्रयोग न करने हेतु निर्देशित किया, पुलिस की एमटी शाखा/थानों में रखी निष्प्रयोज्य गाड़ियों एवं टायरों में कीटनाशक का छिड़काव किया गया ।

शासन / पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार व्यापक स्तर पर जनपदीय पुलिस द्वारा सफाई अभियान चलाया गया जिसमें सभी अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा विशेष रूप से ध्यान देकर पूरे मनोयोग से अपने-अपने कार्यालय एवं परिसर की साफ-सफाई की गयी ।

गौरतलब है कि पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन पर जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार प्रत्येक रविवार के दिन साफ-सफाई अभियान चलाया जाता रहा है, पुलिस अधीक्षक द्वारा बीते दिनों थाना/कार्यालयों का निरीक्षण किया था जिसमें उन्होंने साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दिये जाने के निर्देश दिये थे तथा सम्बन्धित सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को अपने-अपने थाना/कार्यालय की फाइलों को सुव्यवस्थित रखने तथा पुराने रिकार्ड का सुरक्षित संग्रहण करने को कहा था, कार्यालय के अनुपयोगी फर्नीचर एवं अन्य सामग्रियों को भंडार कक्ष में व्यवस्थित तरीके से रखवाए जाने अथवा उसका विधिवत निष्पादन करने के भी निर्देश दिए गये थे ।



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 10.10.2021

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



थाना महोबकंठ पुलिस टीम ने वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध जनपदीय पुलिस टीम द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 10.10.2021 को क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री तेजबहादुर सिंह के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष महोबकंठ श्री सुनील कुमार तिवारी द्वारा गठित उ०नि० सुनील कुमार व का० सौरभ सिंह के नेतृत्व में टीम ने अभियान में सम्मिलित होकर ग्राम करपहाडिया से दो नफर वारंटी अभियुक्त क्रमशः 1. निजाम पुत्र डल्लू खाँ मुसलमान 2. अशोक कुमार पुत्र रघुनाथ लोधी निवासीगण ग्राम करपहाडिया थाना महोबकंठ जिला महोबा सम्बन्धित परिवाद संख्या **494/2018** धारा**452/323/504/506** भादवि सम्बन्धित न्यायालय सिविल जज(जू०डि०) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कुलपहाड़(महोबा) में वारन्टी थे जिनको गिरफ्तार कर थाना स्थानीय पर विधिक कार्यवाही करते हुये सम्बन्धित माननीय न्यायालय महोबा पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० सुनील कुमार 2- कां. सौरभ सिंह

गिरफ्तार अभियुक्त -

1. निजाम पुत्र डल्लू खाँ मुसलमान
2. अशोक कुमार पुत्र रघुनाथ लोधी

निवासीगण ग्राम करपहाडिया थाना महोबकंठ जिला महोबा





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 10.10.2021

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा थाना कबरई में खन्ना और कबरई के विवेचकों का अर्दलीरूम किया गया

क्षेत्राधिकारी चरखारी ने थाना खरेला का किया औचक निरीक्षण



आज दिनांक 10.10.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय द्वारा थाना कबरई में खन्ना और कबरई के विवेचकों का अर्दली रूम किया जिस दौरान विवेचकों को लंबित विवेचनाओं का समय से निस्तारण करने के लिए निर्देशित किया गया , साथ ही सैनिक सम्मेलन कर आरक्षियों की समस्याओं को सुना तथा उनकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए एवं इसी क्रम में क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री उमेशचन्द्र द्वारा थाना खरेला का औचक निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान कोविड केयर हेल्प डेस्क और साथ ही महिला हेल्प डेस्क की समीक्षा की गई थाना स्तर पर जो भी शिकायतें आई हैं उनको रिकॉर्ड किया जा रहा है, कंप्यूटर में फीड किया जा रहा है और पावती दी जा रही है, थाना खरेला में क्राइम की

समीक्षा की गई है जिसमें महिला अपराध से सम्बन्धित कुछ मामलों में वांछित जो प्रीवेंटिव कार्यवाही हैं उसको बढ़ाने पर जोर देने के लिए कहा गया है सीसीटीएनएस और जो रिकॉर्ड से अप टू डेट है ।

तत्पश्चात थाना कार्यालय के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । जिसमें रजि0नं0-4 व 8 तथा फलाई शीट, भूमि-विवाद रजि0, महिला उत्पीड़न रजि0, एससी/एसटी उत्पीड़न रजि0, माल रजि0 सहित आदि रजिस्ट्रो को चेक किया गया तथा माल निस्तारण हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये ।

इसी क्रम में निर्माणाधीन बिल्डिंग का भी निरीक्षण किया गया जिसमें निर्माण कार्य करने वाली कार्यदायी संस्था को अतिशीघ्र गुणवत्तापूर्ण सामग्री के साथ कार्य करने के निर्देश दिये गये हैं जिससे जनपदीय पुलिस के जवानों की रहने सम्बन्धी असुविधा को दूर किया जा सके ।

इस दौरान प्रभारी निरीक्षक खरेला अनूप कुमार दुबे, थानाकार्यालय के अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे ।





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 10.10.2021

महोबा पुलिस



मीडिया सेल, महोबा

क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा कोतवाली पुलिस के साथ महोबा शहर में पैदल गस्त किया गया एवं जनपदीय पुलिस द्वारा पुलिस बल के साथ अपने-अपने थाना क्षेत्र में पैदल गस्त कर की गई संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग



आज दिनांक 10.10.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के कुशल निर्देशन में जनपद में शान्ति/कानून-व्यवस्था के मद्देनजर क्षेत्राधिकारी नगर श्री राम प्रवेश राय द्वारा थाना कोतवाली पुलिस बल के साथ महोबा शहर में कस्बा गस्त किया सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर दुर्गा पांडालों का निरीक्षण किया गया तथा समस्त थानों द्वारा अपने थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार, धार्मिक-स्थल, बस-स्टैण्ड, ढाबा, दुर्गा पंडालों आदि जगहों पर पैदल गस्त करके संदिग्ध वाहनों/व्यक्तियों की चेकिंग की गई तथा सुरक्षा के दृष्टिगत मन्दिरों में पुलिस तैनात किया गया है, साथ ही लोगों को कोविड संक्रमण की तीसरी लहर के प्रति सचेत करते हुए मास्क का प्रयोग व 02 गज

की दूरी सहित कोविड गाइडलाइन का पालन करने की अपील की गई। इसी क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा शराब कि दुकानों का निरीक्षण किया गया एवं सेल्समैन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

यातायात नियमों के उल्लंघन पर **164** ई-चालान किये गये।

